



HAMIRPUR POLICE



थाना सुमेरपुर

दिनांक 30.10.2022

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.10.2022 को ग्राम मुंडेरा थाना सुमेरपुर में आनंद बहादुर सिंह उर्फ लाला मामा पुत्र शिवबरन सिंह निवासी ग्राम मुंडेरा थाना सुमेरपुर हमीरपुर (उम्र करीब 42 वर्ष) की रात्रि में हत्या कर देने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, प्राप्त सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुँचकर प्रकरण के संबंध में जानकारी हुई कि मृतक ने रात में अपने भतीजे अनूप को एक हजार रुपये देकर शराब मंगाई थी जिसके उपरांत घर से शराब लेकर चले गए थे रात भर घर नहीं लौटे। सुबह इनका शव घर के ही बगल में सीसी रोड पर मिला। उच्चाधिकारियों द्वारा फॉरेन्सिक यूनिट के साथ मौके पर पहुंच कर साक्ष्य संकलन कर गहनता से जाँच की गई, इसी क्रम में मृतक के भाई राज बहादुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पर बड़े भाई रामबहादुर शिवबरन सिंह निवासी ग्राम मुंडेरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 490/22 धारा 302 भा0द0सं0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 30.10.2022 को ग्राम तिलसरस थाना मौदहा से को परछछ की तरफ जाने वाली पुख्ता सड़क से वांछित अभियुक्त रामबहादुर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाड़ी देवरीदाई मन्दिर ग्राम मुण्डेरा के पास से बरामद की गयी, गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 47/1989 धारा 147/148/149/302 भा0द0सं0 थाना सुमेरपुर
2. मु0अ0सं0 490/22 धारा 302 भा0द0सं0 थाना सुमेरपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामबहादुर पुत्र शिवबरन सिंह निवासी ग्राम मुण्डेरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर

बरामद माल-

1. एक अदद आलाकत्ल कुल्हाड़ी

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 थाना सुमेरपुर सुरेन्द्र कुमार यादव
2. नि0 श्री राकेश द्विवेदी थाना सुमेरपुर
3. हे0का0 आरिफ खां थाना सुमेरपुर
4. का0 सुशील पाल थाना सुमेरपुर
5. का0 गिरेन्द्र सिंह थाना सुमेरपुर

